



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

8 चैत्र 1938 (श0)
(सं0 पटना 238) पटना, सोमवार, 28 मार्च 2016

सं0 08/आरोप-01-169/2014,सां0प्र0-1349

सामान्य प्रशासन विभाग

संकल्प

23 जनवरी 2015

श्री भानु प्रताप सिंह, (बि०प्रे०से०) कोटि क्रमांक-367/11, तत्कालीन जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी (सम्प्रति अपर समाहर्ता, आपदा प्रबंधन, मुजफ्फरपुर) के विरुद्ध बिहार स्टेट फुड एण्ड सिविल सप्लाइज कारपोरेशन लि०, पटना द्वारा गठित आरोप प्रपत्र 'क' खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-5468, दिनांक 27.08.2013 द्वारा उपलब्ध कराया गया। उक्त प्रतिवेदित आरोपों के आलोक में श्री सिंह का स्पष्टीकरण उनके पत्रांक-12, दिनांक 02.03.2014 द्वारा समर्पित किया गया।

2. आरोपों के आलोक में श्री सिंह से प्राप्त स्पष्टीकरण की समीक्षा के उपरान्त निर्णय लिया गया है कि जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी में पदस्थापन अवधि के दौरान बरती गयी अनियमितता के लिए गठित प्रपत्र 'क' के आलोक में इनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की जाय।

3. अतएव श्री भानु प्रताप सिंह, (बि०प्रे०से०) कोटि क्रमांक-367/11, तत्कालीन जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी (सम्प्रति अपर समाहर्ता, आपदा प्रबंधन, मुजफ्फरपुर) के विरुद्ध अनुलग्न अनुबंध में अन्तर्विष्ट सभी आरोपों के आलोक में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण, एवं अपील) नियमावली-2005 के नियम-17 (2) के तहत विहित रीति से जाँच करने हेतु आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

4. विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी को सहयोग करने तथा विभाग का पक्ष प्रस्तुत करने हेतु जिला पदाधिकारी, मोतिहारी अपने स्तर से किसी पदाधिकारी को उपस्थापन/प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त कर संचालन पदाधिकारी, आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर एवं सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार पटना को सूचित करेंगे।

5. श्री भानु प्रताप सिंह, (बि०प्रे०से०) कोटि क्रमांक-367/11, तत्कालीन जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी (सम्प्रति अपर समाहर्ता, आपदा प्रबंधन, मुजफ्फरपुर) से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने बचाव के संबंध में अपना पक्ष रखने हेतु जैसा कि विभागीय कार्यवाही के संचालन पदाधिकारी, आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर उन्हें अनुमति दें, उनके समक्ष स्वयं उपस्थित होंगे।

6. विभागीय कार्यवाही के संचालन के प्रस्ताव में अनुशासनिक, प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेश:-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

केशव कुमार सिंह,

सरकार के अपर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 238-571+10-डी०टी०पी०।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>